



सिटी ऑफ ब्रैम्पटन 16 जुलाई को सुरक्षित रूप से शहर को दुबारा खोलने के प्रांत के रोडमैप के तीसरे पड़ाव की ओर बढ़ने की तैयारी कर रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (9 जुलाई, 2021) – ओनटैरियो सरकार (Government of Ontario) की आज की घोषणा के बाद, सिटी इस शुक्रवार, 16 जुलाई को, सुबह 12:01 बजे सुरक्षित रूप से शहर को दुबारा खोलने के प्रांत के रोडमैप के तीसरे पड़ाव (Step Three of the Province's Roadmap to Reopen) की ओर बढ़ने की तैयारी कर रही है। हमारी कम्युनिटी और ओनटैरियो के हेल्थ केयर साझेदारों के समर्पित प्रयासों के कारण यह पड़ाव संभव हुआ है। 8 जुलाई, 2021 तक, ओनटैरियो में 12 वर्ष और इससे अधिक उम्र की 77 प्रतिशत आबादी ने कोविड-19 पहली डोज लगवा ली है और 50 प्रतिशत तक आबादी ने अपनी दूसरी डोज लगवा ली है। पूरे प्रांत में कोविड-19 वैकसीन की 16.6 मिलियन से अधिक डोज लगा दी गई हैं।

16 जुलाई से, शहर को दुबारा खोलने के प्रांत के रोडमैप के तीसरे पड़ाव के अंतर्गत, निम्नलिखित नियम और उपाय लागू होंगे:

- आउटडोर सामाजिक जनसमूहों और संगठित सार्वजनिक कार्यक्रमों में, सीमित छूटों के साथ 100 व्यक्ति शामिल हो पाएंगे;
- इनडोर सामाजिक जनसमूहों और संगठित सार्वजनिक कार्यक्रमों में 25 व्यक्ति शामिल हो पाएंगे;
- शारीरिक दूरी के साथ, विवाह संबंधी सेवाओं और अंतिम संस्कार संबंधी सेवाओं सहित, इनडोर धार्मिक सेवाओं, रस्मों या समारोहों की अनुमति है;
- प्रति टेबल बिना किसी सीमा के ग्राहकों की संख्या के साथ इनडोर डाइनिंग (अंदरूनी स्थानों पर खानपान) की अनुमति है, शारीरिक दूरी और अन्य पाबंदियां अभी भी लागू हैं;
- इनडोर स्पोर्ट्स और रेक्रिएशन फिटनेस फैसिलिटीज, इनडोर जगह की अधिकतम 50 प्रतिशत कैपेसिटी सीमा के साथ खुलेंगी। इनडोर दर्शकों के लिए कैपेसिटी सीमा, आम सीटों की कैपेसिटी में से 50 प्रतिशत या 1,000 व्यक्तियों तक सीमित है, जो भी कम हो। आउटडोर दर्शकों के लिए कैपेसिटी सीमा, आम सीटों की कैपेसिटी में से 75 प्रतिशत या 15,000 व्यक्तियों तक सीमित है, जो भी कम हो;
- इनडोर मीटिंग और कार्यक्रम संबंधी जगहों को शारीरिक दूरी के साथ संचालित करने की अनुमति है, अन्य पाबंदियां अभी भी लागू हैं और कैपेसिटी सीमा अधिकतम 50 प्रतिशत कैपेसिटी या 1,000 व्यक्तियों तक सीमित है, (जो भी कम हो);
- कैपेसिटी सीमा के मुताबिक व्यक्तियों की सीमित संख्या के साथ जरूरी और गैर-जरूरी रिटेल की अनुमति है, जब दो मीटर की शारीरिक दूरी रखी जा सके;
- चेहरे से मास्क हटाने की जरूरत वाली सेवाओं सहित, निजी देखभाल की सेवाओं को कैपेसिटी सीमा के मुताबिक व्यक्तियों की सीमित संख्या के साथ अनुमति है, जब दो मीटर की शारीरिक दूरी रखी जा सके;
- अधिकतम इनडोर 50 प्रतिशत कैपेसिटी और आउटडोर 75 प्रतिशत कैपेसिटी के साथ, म्युजियम्स, गैलरीज, ऐतिहासिक जगहों, एक्वेरियमों, चिड़ियाघरों, लैंडमाक्स, बोटनीकल गार्डन्स, साइंस सेंटर्स, कैसीनो/बिंगो हॉल्स, मनोरंजन पार्को, फेयर्स और ग्रामीण प्रदर्शनियों, त्यौहारों की अनुमति है;



- कोन्सर्ट जगहें, सिनेमा और थिएटर्स को निम्नलिखित सीमाओं के साथ संचालित करने की अनुमति है:
 - बैठने वाले कार्यक्रमों के लिए इनडोर 50 प्रतिशत तक या अधिकतम 1,000 व्यक्तियों तक सीमित कैपेसिटी (जो भी कम हो)
 - बिना बैठने वाले कार्यक्रमों के लिए आउटडोर 75 प्रतिशत तक या अधिकतम 5,000 व्यक्तियों तक सीमित कैपेसिटी (जो भी कम हो); और फिक्सड सीटों वाले कार्यक्रमों के लिए आउटडोर 75 प्रतिशत तक या अधिकतम 15,000 व्यक्तियों तक सीमित कैपेसिटी (जो भी कम हो)।
- कैपेसिटी सीमा के मुताबिक व्यक्तियों की सीमित संख्या के साथ रियल एस्टेट ओपन हाउसेज को खोलने की अनुमति है, जब दो मीटर की शारीरिक दूरी रखी जा सके; और
- नाइटक्लब्स और रेस्टोबार्स सहित, इनडोर खानपान वाले संस्थानों के लिए, जहां डांस सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, 25 प्रतिशत तक या अधिकतम 250 व्यक्तियों तक सीमित कैपेसिटी (जो भी कम हो) तक संचालित करने की अनुमति है।

तीसरे पड़ाव के दौरान, इनडोर पब्लिक जगहों पर चेहरा ढकने और शारीरिक दूरी रखने जैसी शर्तें लागू रहेंगी। ऐसा, ओनटैरियो संबंधी खास जानकारी और शर्तों पर भी विचार करने के साथ-साथ, पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ कॅनेडा (Public Health Agency of Canada) के द्वारा जारी किए निजी पब्लिक हेल्थ उपायों की सलाह के मुताबिक है। कुछ आउटडोर पब्लिक जगहों पर भी चेहरा ढकना जरूरी होगा।

प्रांत, रोडमैप के तीसरे पड़ाव में कम से कम 21 दिनों तक और तब तक रहेगा, जब तक कि 80 प्रतिशत तक 12 वर्ष की योग्य आबादी कोविड-19 वैक्सीन की एक डोज न लगवा ले और 75 प्रतिशत आबादी अपनी दूसरी डोज न लगवा ले और किसी भी पब्लिक हेल्थ यूनिट में पूरी तरह वैक्सीन लगवाने वाली आबादी 70 प्रतिशत से कम न हो। अन्य मुख्य पब्लिक हेल्थ और हेल्थ केयर संकेतकों का लगातार स्थिर रहना भी आवश्यक है। इन सीमाओं के पूरा होने पर, इनडोर और आउटडोर जगहों के लिए कैपेसिटी सीमाओं और सामाजिक जनसमूहों के लिए सीमाओं सहित, पब्लिक हेल्थ और कार्यस्थल संबंधी ज्यादातर सुरक्षा उपाय हटा दिए जाएंगे। साइन बोर्ड पोस्ट करना और कारोबारों के लिए सुरक्षा योजना की शर्त जैसी, निष्क्रिय (पैसिव) स्क्रीनिंग की जरूरत सहित, बहुत ही कम संख्या में उपाय लागू रहेंगे।

प्रांत की न्यूज रिलीज [यहां \(here\)](#) पढ़ें।

सिटी की सेवाएं और फैसिलिटीज

रेक्रिएशन सेंटर्स को दुबारा खोलना



रेक्रिएशन सेंटर को दुबारा खोलने के बारे में जानकारी और सिटी के रेक्रिएशन सेंटर्स में जाने संबंधी अपडेट्स के लिए, कृपया 12 जुलाई के सप्ताह में [यहां \(here\)](#) जाएं। ड्रॉप-इन फिटनेस, पानी संबंधी गतिविधियों, स्केटिंग और आम प्रोग्रामिंग में शामिल होने सहित, सभी रेक्रिएशन सेंटर्स में जाने के लिए रिजर्वेशन सिस्टम लागू किया जाएगा।

सिटी की आउटडोर रेक्रिएशनल सुविधाएं

तीसरे पड़ाव के दौरान, जिन आउटडोर रेक्रिएशनल सुविधाओं को खोलने की अनुमति दी गई है, उनमें शामिल हैं, गोल्फ कोर्स और ड्राइविंग रेजेंस, सॉकर और अन्य स्पोर्ट्स फील्ड्स, बेसबॉल डायमंड्स और बैटिंग केजेस, टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट्स, लॉन बॉलिंग तथा बोची, बी.एम.एक्स (BMX) तथा स्केट पार्क, और वेडिंग पूल्स (बच्चों वाले पूल्स) और स्पलैश पैड्स। प्रोफेसर्स लेक (Professor's Lake) बीच और एल्डोराडो पार्क (Eldorado Park) के आउटडोर पूल भी, इस सीजन के लिए दुबारा खुल गया है, मौसम और पानी संबंधी स्थितियां ठीक होने के मुताबिक इनका प्रयोग किया जा सकता है।

सिटी की खास सुविधाओं को दुबारा खोलने की समय सीमाओं और कोविड-19 (COVID-19) के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी पैरामीटर्स संबंधी विवरणों के लिए, कृपया www.brampton.ca/summerfun पर जाएं।

वर्चुअल पेशकशें

वर्चुअल (आभासी) कैंप

वर्चुअल कैंप, 4 से 6 और 6 से 10 वर्ष के भागीदारों के लिए नए दोस्त बनाने, सामाजिक कौशल बढ़ाने, अपनी उम्र के बच्चों और परिवारों के साथ रियल-टाइम में बातचीत करते हुए, अपनी गति से रोमांचक प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर पेश करते हैं। 6 से 13 और 14 से 20 वर्ष के भागीदारों के लिए, इन्क्लूजन वर्चुअल कैंप (Inclusion Virtual Camps) भी उपलब्ध हैं। सभी प्रोग्रामों का नेतृत्व, वेबएक्स (WebEx) प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के कुशल इंस्ट्रक्टरों के द्वारा किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन www.brampton.ca/recathome पर की जा सकती है।

ब्रैम्पटन के निवासी, **वर्चुअल फिटनेस क्लासों** के साथ, घर से ही आराम से गतिविधियां कर सकते हैं। इन क्लासों में प्रत्येक प्राथमिकता वाले व्यक्तियों के लिए, कई तरह के अधिक मेहनत वाले साधारण वर्कआउट पेश किए गए हैं। कुशल फिटनेस इंस्ट्रक्टरों वाले 30 मिनट के मुफ्त लाइव वर्कआउट के लिए रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन, 7 दिन पहले www.brampton.ca/recathome पर की जा सकती है।

55 वर्ष या इससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को भी मुफ्त, इंटरएक्टिव **ऑनलाइन वर्कशॉप्स** के लिए रजिस्टर करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हिस्सा लेने वालों के पास एक सुरक्षित और संगठित वातावरण में, अपनी उम्र के व्यक्तियों के साथ मिलने-जुलने, नए दोस्त बनाने और ऑनलाइन जुड़ने का अवसर होगा। इन गतिविधियों का नेतृत्व, वेबएक्स प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के कुशल इंस्ट्रक्टरों के द्वारा किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन www.brampton.ca/recathome पर की जा सकती है।



वैक्सीनेशन

जो व्यक्ति, पील में रहते, काम करते या स्कूल जाते हैं और जिनकी उम्र 12 वर्ष या अधिक है, वे अपनी पहली डोज के लिए मुलाकात बुक कर सकते हैं।

जिस व्यक्ति ने mRNA वैक्सीन (Pfizer या Moderna) लगवाई है, वह अपनी दूसरी डोज बुक करने के लिए योग्य है। पहली और दूसरी डोज के बीच समय, कम से कम 28 दिन होना आवश्यक है।

जिस व्यक्ति ने कम से कम आठ सप्ताह पहले, AstraZeneca की पहली डोज लगवाई है, वह अपनी दूसरी डोज बुक कर सकता है। यह सलाह दी जाती है कि लोग अपनी दूसरी डोज के लिए mRNA वैक्सीन (Pfizer या Moderna) लगवाएं।

कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में बिल्कुल ताज़ा जानकारी के लिए, प्रांत के [वैक्सीन पोर्टल \(accine portal\)](#) पर जाएं।

लिंक

- [सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की कोविड-19 प्रोग्रामिंग और सेवा अपडेट्स \(City of Brampton COVID-19 programming and service updates\)](#)
- [सिटी ऑफ ब्रैम्पटन – क्या खुला है, क्या बंद है \(City of Brampton – what's open, what's closed\)](#)
- [कोविड-19 के लक्षण \(COVID-19 symptoms\)](#)
- [कोविड-19 वैक्सीन \(COVID-19 vaccine\)](#)
- [ब्रैम्पटन में टेस्टिंग \(Testing in Brampton\)](#)
- [खुद को दूसरों से अलग कैसे रखना है \(How to self-isolate\)](#)
- [कोविड-19 के दौरान कारोबारों और कार्यस्थलों को सुरक्षित रखना \(Keeping businesses and workplaces safe during COVID-19\)](#)
- [पील में कोविड-19 के केस \(Cases of COVID-19 in Peel\)](#)



Service and Information Update

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca